



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 अगस्त 1935 (श०)  
(सं० पटना 891) पटना, मंगलवार, 10 दिसम्बर 2013

---

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2012

सं० 5/सह.फ.बी.-29/2012-3569—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/01/2008 क्रेडिट II दिनांक 07.03.2012 से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस क्रम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 10.07.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) खरीफ 2012 मौसम में राज्य के 31 (इकतीस) जिलों में लागू करते हुए अधिसूचना संख्या 3132 दिनांक 19.07.12 निर्गत की गयी है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-2 (VII) में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31.07.12 निर्धारित थी।

2. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13014/02/2012-क्रेडिट II दिनांक 08 अगस्त, 2012 के आलोक में पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की धान फसल हेतु बीमा कराने की तिथि को 14.08.12 तक निम्नांकित शर्तों के तहत विस्तारित की जाती है :-

(क) धान फसल की रोपनी विस्तारित अवधि में की गयी हो।

(ख) सभी गैर ऋणी कृषक विस्तारित अवधि में की गयी रोपनी की तिथि एवं उक्त धान की फसल की स्वस्थता का प्रमाण पत्र बीमा के समय देंगे।

(ग) केवल स्वस्थ धान की फसल ही बीमा के तहत आच्छादित होंगे।

3. संबंधित सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा कराने की विस्तारित अवधि के 15 दिनों के अन्दर तथा ऋणी कृषकों के लिये विस्तारित अवधि के एक माह के अन्दर घोषणा पत्र आदि बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे।

4. ऋणी कृषक से आशय वैसे कृषकों से हैं, जिनका साख सीमा दिनांक 14.08.12 तक संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

5. योजना के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या 3132 दिनांक 19.07.12 की अन्य सभी शर्तों पूर्ववत् रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**रामाश्रय कुमार,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 891-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>